

नीति प्रस्ताव अनुवाद

एपीएनआईसी 45 में चर्चा किए गए नीति प्रस्तावों का परिणाम

काठमाँडू, नेपाल में आयोजित एपीएनआईसी 45 में एक खुली नीति बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया।

प्रॉप-118: एपीएनआईसी क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं की नीति

इस प्रस्ताव के लेखक से संपर्क संभव नहीं हो पाया और एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत किए जाने हेतु एक संशोधित प्रस्ताव की अनुमति के लिए लेखक को बदलने पर आम सहमति प्राप्त हुई।

प्रॉप-119: अस्थायी स्थानांतरण

इस प्रस्ताव के लेखक से संपर्क संभव नहीं हो पाया और एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत किए जाने हेतु एक संशोधित प्रस्ताव की अनुमति के लिए लेखक को बदलने पर आम सहमति प्राप्त हुई।

प्रॉप-120: अंतिम /8 पूल शून्यीकरण योजना

शून्यीकरण के बाद की नीति और अंतिम /8 (103/8) के लिए पूल प्रबंधन पर सहमत होने के लिए इस प्रस्ताव के संस्करण 2 पर आम सहमति प्राप्त नहीं हुई। प्रतीक्षा सूची प्रबंधन हो या न हो, इसपर चर्चा के लिए कई प्रश्न उठाए गए और नए सदस्यों ने इसे प्राथमिकता दी। नए सदस्यों के लिए पहुँच के साथ सभी पुनर्प्राप्त स्थानों के लिए केवल एक सूची बनाए रखने के लिए कुछ समर्थन प्राप्त हुआ। अध्यक्ष ने इसे आगे की चर्चा के लिए मेलिंग सूची के पास वापिस भेज दिया।

प्रॉप-123: 103/8 आईपीवी 4 स्थानांतरण नीति को संशोधित किया जाए

14 सितंबर 2017 से पहले किए गए डेलिगेशन के लिए पाँच साल के प्रतिबंध के बिना 103/8 पतों के स्थानांतरण की अनुमति देने के इस प्रस्ताव पर आम सहमति प्राप्त नहीं हुई। इसपर आगे विचार किए जाने के लिए और प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव के लिए इसे लेखक के पास वापिस भेज दिया गया। एम एंड ए स्थानांतरण को पाँच साल के स्थानांतरण प्रतिबंध से छूट देने के लिए कुछ समर्थन मौजूद था।

उपयोगी कड़ियाँ

- नीति चर्चा मेलिंग सूची की सदस्यता लें
 - <https://mailman.apnic.net/mailling-lists/sig-policy>
- एपीएनआईसी 45 नीति पृष्ठ पर जाएँ
 - <https://conference.apnic.net/45/policy/call-for-proposals/>